Ad revival brings festive cheer in the time of Covid

Advertisers increase budgets, return to TV and print media

VANITA KOHLI-KHANDEKAR New Delhi, 8 November

inod Goyal, managing direc-Jaipur-based Mangalam Builders, is discovering a new side of home buyers. After the lockdown, the demand for big houses, that people want to stay and work in rather than just invest in, has gone up; so have

Much to the delight of local newspapers and radio stations, Goyal has **SURGING REVENUES** pushed up Mangalam's ad budget by about 15 per cent to cash in on this demand. "Any momentum is fantastic. Retail is bouncing back and they need print," says Girish Agarwal, director, DB Corp. Its flagship Danik Bhaskar is among the leading papers in Jaipur that Mangalam advertises


"If FY 20, which was a normal year, is the benchmark, then we are at 90 per cent of that (in the print business) with same level of profitability," says Agarwal. Even circulation or copies sold are now at almost at pre-Covid

Similarly at Sony, the current season of Kaun Banega Crorepati, on Star the Indian Premier League (IPL) and the ongoing T20WC, have got advertisers back with a vengeance. There is a 25 per cent growth over the festival (October, November. December) in FY 2020, the last normal year for everybody.

"There is an overall increase in demand and ad spend. There is pent up demand and advertisers have a lot of unused budgets. Plus, IPL and T20 boosted sentiment. TV has been a big driver," says Shrikant Shenoy, general manager, Lodestar UM, a media buying agency.

It is estimated that the ₹63,100 crore spent on advertising in 2020 will grow by 10-15 per cent this year. It had dropped by 20 per cent drop last year.





This looks like a one happy Diwali. There is definitely a revival, but there is also cautious optimism. There is some level of uncertainty because

the third wave could happen. The secand wave broke confidence — anything can happen without a warning." says Mohit Joshi, CEO, Havas Media

this revival — it is coloured by the pandemic in myriad ways.

"People wanted bigger homes because they were working from

home, so real estate started rising. Jewellery is rising because people want to put the money they saved somewhere," analyses Agarwal.

'The skew of brand advertising changed: there is an entirely new set of advertisers called fintech, EdTech et al," savs Joshi.

Think of Byju's or Cred. Much of this is simply because, thanks to the And that is the first point about pandemic, our lives have moved online. Yet automobiles, which have been among the biggest advertisers on print and TV is yet to rise again. A global shortage of chips has meant

that "supply is a problem even though demand is strong," says Shashank Srivastava, executive director, Maruti Suzuki. As a category, automobiles will just about reach FY2020 levels of advertising spend, he reckons.

The small-town, digital connection

'The revival is coming from tier 2, 3. 4 cities such as Nasik, Aurangabad, Dhanbad, Alwar, Gwalior, Sagar," says

From about 65 per cent, DB now gets over 70 per cent of its advertising from local advertisers such as Mangalam in Jaipur or Anand Jewellers in Indore. That, surprisingly, is the second point. Unlike ad revivals in the past, this one is not led by Metro markets such as Mumbai or Delhi but by people in the secondrung cities getting restless and wanting to step out and spend. It also explains, in part, why print is soaring so quickly despite the fact that there has been no Indian Readership Survey or IRS since the last quarter of

This brings it to the last and most important point about the revival. It has reinforced the power of print and TV. The impact of being on say KBC or the front page of page of Dainik Bhaskar was clearly being missed. "Digital got a chance to prove whatever it had to prove. This has been a period of validation," says Shenoy. He explains that the top funnel (of marketing) is about reach and awareness where traditional media works best. At the middle funnel where desire, preferences et al are being created, a mix of traditional and digital works. The bottom funnel which is about getting sales, driving e-commerce, is where digital works best.

At 468 million unique visitors a month, digital's reach is just a little over half of TV's 892 million. Print has been at a steady 421 million a month. The mind space that digital has occupied for some time now has been disproportionate to its hold and size. There has been a much-needed correction on that. As Shenoy says, "This year will be a one-of-a-kind.

SHYAM


ORE TO METAL

DOMESTIC FLIER COUNT 89% OF PRE-COVID **FIGURE LAST SUNDAY**

Domestic airlines flew 2,701 flights and carried 378,992 passengers on Sunday, which also saw the highest number of flights and passengers flown since resumption of air travel in last May. While the number of flights was about 85 per cent of the approved winter schedule, the passenger figure was about 89 per cent of the pre-Covid-19 figure. The first seven days of November have also seen the highest traffic on a comparative basis this year. Traffic in November has been driven by Diwali holidays. Rapid vaccination, too, has aided demand. Airlines are allowed to operate at hundred per cent capacity in the winter schedule which began on October 31.

COMPILED BY ANEESH PHADNIS







Shriram **Capital closes** in on merger deal with

lending units

Shriram Capital Ltd is nearing a deal to merge with its lending arms as it seeks to fold its offerings into a single entity, people familiar with the matter said.

Unlisted Shriram Capital is in the process of firming up the amalgamation with Shriram Transport Finance Co and Shriram City Union Finance Ltd after working on the deal for at least three years, the people said. The merged entity would have ₹1.5 trillion (\$20 billion) of assets under management, they said, asking not to be identified as the information isn't public.

The group's insurance business will be kept out of any potential transaction after the central bank objected, one of the people

ICICI Securities Ltd and Morgan Stanley are advising on the merger, which may be announced as soon as the coming weeks, according to the people. No final decision has been reached, and the discussions could still fall apart, they said.

A deal could help investors in Shriram Capital, including billionaire Ajay Piramal and private equity firm TPG Capital, to cash

Shriram Transport is a financier of new and preowned trucks, while Shriram City Union funds purchases of consumer goods and motorcycles.

Representatives Morgan Stanley and ICICI Securities declined to comment. If Shriram Group decides to restructure its holdings and operations at any stage, it will formally communicate to all stakeholders, a company spokesman said.

SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED

Registered Office: Trinity Tower, 7th Floor, 83 Topsia Road, Kolkata - 700 046. Ph: 033-4016-4000/4001, E-Mail: compliance@shyamgroup.com, Website: www.shyammetalics.com CIN: U40101WB2002PLC095491







Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021

PARTICULARS	CONSOLIDATED							
	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2020 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2021 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)		
Total income from operations (net)	2494.34	2465.03	1335.15	4959.37	2246.99	6297.07		
Earning before Interest, Depreciation and Amortisation, Share in Profit / (Loss) of associates and Joint Venture and Tax (1-2)	644.76	695.43	263.72	1340.19	419.34	1417.78		
Net Profit(+)/Loss(-) before tax	579.62	627.34	173.88	1206.96	241.2	1054.96		
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax	410.28	458.01	159.63	868.29	239.99	843.56		
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	424.05	485.53	159.94	909.58	242.72	848.71		
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)	255.08	255.08	233.61	255.08	233.61	233.61		
Other Equity						3400.44		
Earnings Per Share (EPS) (not to be annualised) a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	16.08 16.08	19.43 19.43	6.83 6.83	35.37 35.37	10.27 10.27	36.10 36.10		

- l. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year endec September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange Websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.shyammetalics.com.
- 2. The Board of Directors has recommended an interim dividend of Rs. 2.25/ per equity shares of Rs. 10 each. The Record date for the interim dividend is November 19, 2021 as fixed by the Board in its Meeting.
- 3. The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on November 8, 2021 and approved by the Board of

						(Rs. In Cr.)			
PARTICULARS		STANDALONE							
	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2020 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2021 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)			
Total income from operations (net)	1157.61	1186.09	663.34	2343.70	1156.50	3023.74			
Net Profit(+)/Loss(-) before tax	328.42	301.26	85.35	629.68	126.06	529.47			
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax	259.64	224.88	91.30	484.52	140.94	438.90			

Place: Kolkata Date: 08.11.2021 For SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED B. Bhushan Agarwal Vice Chairman & Managing Director

INTEGRATED OPERATIONS

ACROSS THE STEEL VALUE CHAIN REAL STEEL. REAL STRENGTH.

Date: November 8, 2021 SPONGE IRON | BILLETS | TMT | SEL STRUCTURALS | WIRE ROD | FERRO ALLOYS | ALUMINIUM FOI

Talbros Automotive Components Limited

CIN: L29199HR1956PLC033107 Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Tel No.: 0129-2251482, Website: www.talbros.com, Email: seema narang@talbros.com

CONSOLIDATED NET REVENUE UP BY 32.19% in Q2*

talbr

CONSOLIDATED **UP BY**

CONSOLIDATED PAT UP BY

AS COMPARED TO Q2 IN PREVIOUS FINANCIAL YEAR

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

Year ended 30-Sep-21 30-Jun-21 30-Sep-20 30-Sep-21 30-Sep-20 31-Mar-21 11.021.63 28.451.91 Total Income from Operations 13.881.90 Profit/(Loss) before exceptional Items and tax 1,377.07 1,143.30 1,053.70 2,520.37 138.07 3.368.70 1,811.94 rofit/(Loss) before tax 1.377.07 1,143.30 1.053.70138.07 5,180.64 3,913.07 1.112.16 995.97 1.000.15 2.108.13 114.44 Net Profit/(Loss) after tax Total Comprehensive income/(loss) for the 1.062.72 1 444 65 1.203.95 2.507.37 536 08 5.022.39 period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax) 1.234.56 1,234.56 1,234.56 1,234.56 1,234.56 1,234.56 Paid-up equity share capital (face value of ₹10/- each) Earning Per Share (of ₹10/- each) (for the period - not annualised) 31.70 31.70 8.07 0.93

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF TEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021							
	(Quarter ende	d	Half Yea	Year ended		
Particulars	30-Sep-21	30-Jun-21	30-Sep-20	30-Sep-21	30-Sep-20	31-Mar-21	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operation	14,570.01	13,881.90	11,021.63	28,451.91	16,070.20	45,315.14	
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	1,158.01	1,006.26	770.47	2,164.27	122.13	2,816.43	
Profit/(Loss) before tax	1,158.01	1,006.26	770.47	2,164.27	122.13	4,628.37	
Net Profit/(Loss) after tax	893.10	858.93	716.92	1,752.03	98.50	3,360.80	

- The above is an extract of the detailed format of consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/half yearly Financial Results and notes thereto are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on Company's website www.talbros.com.
- 2 The Unaudited financial results were recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their
- respective meetings held on November 8, 2021 and have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company During the guarter ended March 31, 2021, the Group has sold its Property, plant and equipment situated at Chennai, Tamilnadu and has written off receivables, inventory and other assets related to the Chennai plant. The net gain from the transaction has been disclosed as exceptional items in the results. The capital gain tax on sale of property, plant and equipment has been disclosed as part of the tax expense in the results. Following table provides bifurcation between exceptional items & capital gain tax on sale of property, plant & equipment and profit from operations & related tax expense.

							(₹ in lacs)		
Sr.	Particulars	Consolidated							
No.			Quarter ende	d	Half Yea	Year ended			
		30-Sep-21	30-Jun-21	30-Sep-20	30-Sep-21	30-Sep-20	31-Mar-21		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
A.	Operational Profit								
	1 Profit Before Exceptional Item	1,377.07	1,143.30	1,053.70	2,520.37	138.07	3,368.70		
	2 Tax Expenses	(264.91)	(147.33)	(53.55)	(412.24)	(23.63)	(924.89)		
	Profit After Tax	1,112.16	995.97	1,000.14	2,108.13	114.44	2,443.82		
В.	Monetization of Chennai Property (Exceptional)								
	1 Exceptional items	_	_	_	_	_	1,811.94		
	2 Capital Gain Tax	_	-	_	_	_	(342.68)		
	PAT (Exceptional Items)	_	-	_	-	-	1,469.26		

4 The Group's operations and financial results for the quarter and half year ended September 30, 2021 were initially impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent series of lockdowns announced by the Government of India due to which the operations were disrupted in some part of first quarter and gradually resumed with requisite precautions and then continued normally. The results for the quarter and half year ended September 30, 2021 are therefore not comparable with those for the previous period. The Group has considered the possible effects that may results from this pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, investment, inventories, receivables and other current assets. The Group expects the carrying amount of these assets will be recovered and no material adjustment required in the financial statement The Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

5 The comparative figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to make them comparable with current

For Talbros Automotive Components Limited

Umesh Talwai Vice Chairman & Managing Director



फिल्म शूटिंग-पर्यटन पर जोर फिल्मकारों के लिए शूटिंग आसान बनाने के लिए सरकार फिल्म सुविधा नीति बनाएगी

पर्यटन बोर्डों ने भी कई पर्यटन

स्थलों का प्रचार-प्रसार करने के

लोकप्रियता का फायदा उठाया है

फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

एसएएम शाखा लखनऊ. द्वितीय तल. शारदा टॉवर

कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ – 226021

शुद्धि पत्र

देनांक 14.10.2021 को आगरा संस्करण मे

प्रकाशित ई—नीलामी बिक्री सूचना में

'आरसीसी इंफ्रा वेंचर लिमिटेड

(कंपनी)'' को तत्काल प्रभाव से रदद कर

दिया गया है। बाकी सम्पत्तियों के लिए

ई—नीलामी यथावत रहेगी

बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन और

उनमें सुधार के लिए अनुभवी HRMS सेवा प्रदाताओं से

रुचि प्रकटन आमंत्रित हैं।

विवरण के लिए देखिए:

https://www.eximbankindia.in/tenders-and-notices

आवेदन करने की अंतिम तिथिः 24.11.2021

🔵 इंडिया एक्ज़िम वैंक 🕨 India Exim Bank

भारतीय सिनेमा की

अनीश फडणीस

ई सालों से मॉरिशस के समुद्र तट और मध्य यूरोप की सबसे बडी पर्वतमाला स्विस आल्प्स, भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। भारत से छड़ी बिताने के लिए आने वालों के लिए यहां की स्थानीय जगहें भी काफी लोकप्रिय हैं। अब घरेलु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारत में फिल्मकारों के लिए शुटिंग आसान बनाने के लिए सरकार एक मॉडल फिल्म सुविधा नीति बनाएगी। राज्यों को शूटिंग के लिए समय पर अनुमति देने के लिए केंद्र फिल्म संवर्धन कार्यालय स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

यह सुचना एवं प्रसारण और पर्यटन मंत्रालयों की संयुक्त पहल का एक हिस्सा है। विदेश के मुकाबले भारत में एक फिल्म की शूटिंग की लागत कम है लेकिन फिल्म निर्माता अनुकूल नीतियों और आसानी से अनुमति मिल जाने की वजह से विदेशी स्थानों को शूटिंग के लिए चुनते हैं। देश में 14 राज्यों की अपनी फिल्म सुविधा नीति है जबिक 18 राज्य फिल्म निर्माताओं को इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देते हैं। सोमवार को एक उद्योग संगोष्ठी में सचिव (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) अपूर्व चंद्रा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की कुछ नीतियों पर आधारित, मॉडल फिल्म नीति का मसौदा तैयार करने की योजना बना रही है। मॉडल नीति का मसौदा अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे भी इसे अपना सकें। उन्होंने कहा, 'हालांकि प्रोत्साहन महत्वपूर्ण हैं लेकिन श्टिंग में आसानी और मंज्री भी आसानी से मिलना अधिक जरूरी है।' उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के तहत काम करने वाले फिल्म सुविधा अधिकारी ने 27 देशों के 120 फिल्म निर्माताओं को भारत

में शूटिंग की सुविधा दी है। पर्यटन मंत्रालय में सचिव अरविंद सिंह ने कहा, 'मंजूरी से संबंधित अधिकांश मुद्दे स्थानीय और राज्य सरकारों के दायरे में हैं। इसके अनुसार ही राज्य सरकारों को उच्चतम स्तर पर फिल्म संवर्धन

साप्ताहिक संकेतक

सभी आर्थिक संकेतकों में दिखी गिरावट

सचिन मामबटा और कृष्णकांत

आर्थिक गतिविधियों के साप्ताहिक संकेतकों ने दीवाली के दौरान कई छुट्टियों के बीच ताजा सप्ताह में गिरावट के रुख दर्शाए। गुरुवार, 4 नवंबर को दीवाली की सरकारी छुट्टी थी। गोवर्धन पूजा और भाई दुज के लिए अगले दो दिन अवकाश थे। बिजली उत्पादन से लेकर माल ढुलाई, यातायात और आवाजाही के सभी संकेतकों में ताजा हफ्ते में गिरावट देखी गई।

दीवाली खत्म होने के बाद बिजली उत्पादन में गिरावट में खासी तेजी आई। साप्ताहिक आधार पर बिजली उत्पादन औसतन 9 प्रतिशत कम रहा और मौजूदा कैलेंडर वर्ष के दौरान यह सबसे कम था। देश भर में बिजली कंपनियों ने रिपोर्टिंग दिन डेटा के आधार पर ७ नवंबर, 2021 को समाप्त हफ्ते के दौरान औसतन 329.3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया जो एक सप्ताह पहले 362 करोड़ यूनिट से कम था। यह 2019 में इसी सप्ताह की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक था लेकिन 2020 में इसी सप्ताह के बिजली उत्पादन की तुलना में 6.2 प्रतिशत कम था। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई की मात्रा में पिछले सप्ताह के 11.6 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाईं। पिछले सप्ताह माल या माल ढुलाई से होने वाली आमदनी उससे पिछले हफ्ते के 20.2 फीसदी की तुलना में 13.4 प्रतिशत रही। प्रमुख शहरों में सड़क पर कम यातायात देखा गया। नई दिल्ली में यातायात एक हफ्ते पहले के 10 फीसदी की तुलना में 34 फीसदी नीचे रहा।



कार्यालय स्थापित करने पर विचार

करने की आवश्यकता है जो

विभिन्न विभागों और संस्थानों के

साथ समन्वय स्थापित कर सके

और समय पर अनुमति देने में

मददगार साबित हो सके।' फिल्म

संवर्धन कार्यालय को भी स्थानीय

स्तर पर हस्तक्षेप करने और जरूरत

पड़ने पर मुद्दों को सुलझाने का

अधिकार होना चाहिए। सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन

मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं और

पर्यटन क्षेत्र के बीच तालमेल

बनाने और भारतीय और वैश्विक

फिल्मकारों के बीच साझेदारी

बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन

पर हस्ताक्षर किए हैं । वैश्विक

 राज्यों को शूटिंग के लिए अनुमति देने के लिए फिल्म संवर्धन कार्यालय भी बनाए जाएंगे

- **2015** के बाद से ही **27** देशों के 120 फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग की सुविधा दी गई है
- **■**ईवाई और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की 2019 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि भारत 2022 तक 10 लाख फिल्म पर्यटकों के आने की उम्मीद कर सकता है

करने के लिए कर छूट और मुफ्त में होटल में ठहरने जैसी लुभावनी पेशकश कर फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित किया है। पहले भी थॉमस कुक जैसी पर्यटन कंपनियों ने फ्रांस,

इटली और स्विट्जरलैंड को कवर करते हुए बॉलीवुड शूटिंग से प्रेरित यात्राओं का आयोजन किया है।

पर्यटन विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर बराड ने कहा. 'फिल्म, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद स्पेन द्वारा जारी वीजा लगभग दोगना हो गया। इस तरह का असर फिल्मों का पर्यटन पर पड़ता है।' अब भारत सरकार फिर से इस पर जोर दे रही है और उसे उम्मीद है कि सिनेमा के माध्यम से यहां के प्राकृतिक आकर्षण वाले स्थलों, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकेगा। ईवाई और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की 2019 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि भारत 2022 तक 10 लाख फिल्म पर्यटकों के आने की उम्मीद कर सकता है और प्रत्येक पर्यटक 3.000 डॉलर तक खर्च कर

punjab national bank

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, ७, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ई-मेंल : cs8320@pnb.co.in

कब्जा सूचना प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) साथ पठित (अचल सम्पत्ति हेत्

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन एवं प्रतिभृति हिर प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, शाखाः मण्डल शस्त्रा केन्द्र, दक्षिणी दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए <mark>उधारकर्ता श्रीमती निशा वर्मा पत्नी श्री मनोज वर्मा, एफ-10/3, ऊपरी भूतल,</mark> मालवीय नगर, नई दिल्ली—110017, बी3बी बिग ग्रुप, 3 / 31, तृतीय तल, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली—110008 और: ।—145बी, तृतीय तल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110015 और मनीष दुग्गल (गारंटर), जे—9, प्रथम तल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110015 <u>और:</u> आईसी/35 नामधारी कॉलोनी, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015 को मांग नोटिस दिनांक 21.08.2021 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 42,92,007/- (रु. ब्यालीस लाख बान्वे हजार सात मात्र)

उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता / गारंटर्स / बंधककर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 08.11.2021 को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप र चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोइ भी लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक, शाखाः मण्डल शस्त्रा केन्द्र, दक्षिणी दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 42,92,007/- (रु. ब्यालीस लाख बान्वे हजार सात मात्र) दिनांक 21.08.2021 तक (दिनांक 31.07.2021 तक ब्याज की गणना) और भविष्य का ब्याज, लागत एवं खर्चें इत्यादि सहित पूर्ण चुकौती की तिथि के अधीन होगा।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि उत्तरी / राईट साईड तृतीय तल पर निर्मित, छत / टेरेस अधिकार सहित, फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति जिसे अब सम्पत्ति नं. ।-145-बी, (प्लॉट नं.) —146 से जुड़ा) प्लॉट नं.) —145 का हिस्से पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज में से क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, निचली भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, गाँव-बसोई दारापुर क्षेत्र में, **स्वीकृत कॉलोनी कीर्ति नगर की आबादी में, नई दिल्ली—110015 में स्थित,** चौहद्दीं: उत्तर में सम्पत्ति नं. ।—146, पुरब में — रोड, दक्षिण में — सम्पत्ति नं. ।—144, पश्चिम में — सर्विर

दिनांक : 08.11.2021, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

बेंक ऑफ़ बडोदा Bank of Baroda FEIGHT VIJAVA DENA

www.bankofbaroda.in

[एक शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति से संबंधित]

- 1. एतदुद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एमसीए परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 एवं अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 07 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से बैठक की सूचना में यथानिहित कारोबार के संचालन हेतु अर्थात् केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने के लिए आयोजित की जाएगीं
- 2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में इस ईजीएम नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सभी शेयरधारकों जिनके ई-मेल पते बैंक /डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं, को प्रेषित कर दी गई है. इसकी एक प्रति बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.bankofbaroda.in एवं ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है.
- 3. ऐसे शेयरधारक जिनके पास निर्धारित कट-ऑफ तारीख अर्थात् 29 अक्तूबर, 2021 को भौतिक रूप में अथवा डीमैटेरियलाइज रूप में शेयर उपलब्ध हैं, केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पद्धति के माध्यम से ईजीएम की सूचना में दर्शायी गई कार्यवाही के संबंध में ("रिमोट ई-वोटिंग") इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना

इस अनुक्रम में शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:-

- ए. ईजीएम की सूचना में दर्शायी गई कार्यवाही रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से संचालित की जाएगी.
- बी. रिमोट ई-वोटिंग 03 दिसंबर, 2021, शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और 06 दिसंबर, 2021, सोमवार को सायं 5:00 बजे
- सी. रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख 29 अक्तूबर, 2021 होगी.
- डी. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल दिनांक 06 दिसंबर, 2021 को भारतीय समय के अनुसार सायं 5:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- ई. शेयरधारक यह नोट करें कि:
 - i. वोटिंग की सुविधा ईजीएम के दौरान भी उपलब्ध होगी एवं ऐसे शेयरधारक जो ईजीएम में वीसी सुविधा के माध्यम से जुड़े होंगे और जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया होगा और उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया होगा, ईजीएम के दौरान ई वोटिंग पद्धति के माध्यम से अपना
 - ii. वैसे शेयरधारक जिन्होंने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग के जरिए अपना मतदान कर दिया है, भी ईजीएम में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन दोबारा अपना
 - iii. केवल वही व्यक्ति जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा तैयार किए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में विनिर्दिष्ट*।* कट-ऑफ तारीख को दर्ज हैं, ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.
- एफ़. डीमैटेरियलाइज रूप में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए दूरस्थ मतदान करने की प्रक्रिया ईजीएम की नोटिस में उपलब्ध कराई गई है. इसका विवरण बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. सदस्यों से अनुरोध है कि इन विवरणों को देखने हेतु www.bankofbaroda.in विजिट करें.
- जी. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) के साथ अपने ई-मेल पते का पंजीकरण कराएं एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से <u>einward.ris@kfintech.com</u> पर अपने ई-मेल पते को अपडेट करने हेतु अनुरोध करें, ताकि ईजीएम की नोटिस, रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश तथा वीसी के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता संबंधी अनुदेश प्राप्त हो सके.
- एच. रिमोट ई-वोटिंग संबंधी किसी जानकारी हेतु शेयरधारक सदस्य केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्र" (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री एस वी राजू, उप महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, (यनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली, फ़िनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500032, ई-मेल <u>raju.sv@kfintech.com,</u> फोन नं. 1-800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.
- 4. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में हुई वोटिंग का समग्र परिणाम बैंक द्वारा ईजीएम के पश्चात 2 कार्य दिवसों के अंदर बैंक की वेबसाइट तथा केफिन के वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा इस बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा.
- 5. ऐसे सदस्य जिन्हें वीसी के माध्यम से बैठक में एक्सेस और प्रतिभागिता के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, हेल्पलाइन नंबर 1-800-309-4001 पर संपर्क
- 6. उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर, 2021 को सायं 4:00 बजे तक होगी.

दिनांक: 09.11.2021

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा 🏻 🏗 पी के अग्रवाल कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम

राफेल: कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठाई

संदर्भ में फ्रांस के एक समाचार पोर्टल की खबर को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसने सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सांठगांठ करके इस 'घोटाले' पर पर्दा डाला और यह बात अब उजागर हो चुकी है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के जरिये जांच होनी चाहिए। पार्टी के पर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने ट्वीट किया, 'जब पग-पग पर सत्य साथ है, तो फिक्र की क्या बात है ? मेरे कांग्रेस साथियों भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे

कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे के ही लडते रहो। रुको मत, थको मत, डरो मत!'

> कांग्रेस और राहल गांधी की ओर से ये आरोप उस वक्त लगाए गए हैं जब फ्रांस के पोर्टल 'मीडिया पार्ट' ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल निर्माता कंपनी दसॉ की ओर से बिचौलियों को कम से कम 75 लाख यूरो की रिश्वत देने के लिए कथित फर्जी रसीदों का उपयोग किया गया है। कांग्रेस और इस पोर्टल के दावों पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय एवं दसॉ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर, इस पोर्टल के खबर के आधार पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडियन

नैशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) का नाम बदल कर 'आई नीड कमीशन (मुझे कमीशन चाहिए) ' कर दिया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी 'अफवाह, झूठ और भ्रामक सूचनाएं' फैलाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, 'मोदी सरकार द्वारा 'राफेल सौदे' में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए 'ऑपरेशन कवर-अप (मामले को रफा-दफा करने का अभियान) ' एक बार फिर उजागर हो गया है।

इंडियन बैंक **Indian Bank**

परिशिष्ठं – IV [नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **इंडियन बेंक (भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक)** ग्रीन पॉर्क एक्सटेंशन, के प्राधिकृत होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन)(अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ उ ाठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **दिनांक 24.06.2021** को मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार**—श्री पवन ओझा** (मालिक और गारंट) मेसर्स मेड बाय इंडिया. निवासी मकान सं. एच–29, सेक्टर–41, नोएंडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201301 और श्री शारदा प्रसाद ओझा (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी मकान सं. एच–29, सेक्टर–41, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201301 जिसका खाता ग्रीन पॉर्क एक्सटेशन के पास, से सूचना में उल्लेखित राशि सूचना में उल्लेखित दिनांक को **रु. ३,२६,७७⁷,587.21/— (रुपये तीन करोड़ छब्बीस** लाख सतहत्तर हजार पांच सौ सत्तासी और इक्कीस पैसे मात्र) दिनांक 3 1.03.2021 से सहमति ब्याज के साथ उक्त स्वचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर को भुगतान करने के लिए कहा।

कुर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली. 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लेखित संपत्ति का **वर्ष 2021 नवम्बर के 6टे दिन** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप से सर्व जन को उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन—देन रु. 3.26.77.587.21/**— (रुपये तीन करोड़ छब्बीस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ सत्तासी और इक्कीस पैसे मात्र)** जोकि दिनांक 3 1.03.202 1से बकाया है और उस पर ब्याज सहित इंडिय बैंक के प्रभार के अधीन होगा

अचल संपत्ति संख्या 1 का विवरण

आवासीय मकान सं. 49, कैटेगरी–ईडब्ल्यूएस्, ब्लॉक्–जी, सेक्टर–22, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.201306, मापक क्षेत्र 29 वर्ग मीटर, श्री शारदा प्रसाद ओझा के स्वामित्व का जोकि पंजीयन सं. 13253/13254, पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 488, पृष्ठ सं. 605 से 622 दिनांक 19. 12.2003 को लिखित संग उप पंजीयक—III, नोएडा के कार्यालय अंतर्गत पंजीकृत का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : पूर्व की ओर : मकान सं. जी–64 , पश्चिम की ओर : सड़क , उत्तर की ओर : मकान सं. जी–48 , दक्षिण की ओर : मकान सं. जी–50 अचल संपत्ति संख्या 2 का विवरण

संपत्ति शामिल प्लाट सं. 99, इकोटेक–2, उद्योग केंद्र–2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उ.प्र., मापक क्षेत्र 518.40 वर्ग मीटर, मेड बाय इंडिया के स्वामित्व का अपने मालिक श्री पवन कुमार ओझा पुत्र श्री शारदा प्रसाद ओझा निवासी एश 29, सेक्टर–41, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.—201301, जोकि पंजीयन सं. 22927, पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 7518, पृष्ठ सं. 339 से 364 दिनांक 02.11.2010 को लिखित संग उप पंजीयक सदर गौतम बुद्ध नगर उ.प्र. के अंतर्गत पंजीकृत का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : उत्तर-पूर्व की ओर : प्लॉट सं. 134, दक्षिण-पश्चिम की ओर : 24.0 मीटर चोड़ी सड़क, उत्तर-पश्चिम की ओर : 24.0 मीटर चोड़ी सड़क

दक्षिण—पूर्व की ओर : प्लॉट सं. ९९ए

अचल संपत्ति संख्या 3 का विवरण

संपत्ति शामिल आवासीय संपत्ति सं. 210, ब्लॉक—सी, सेक्टर—एक्सयू—आई, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.–201308, मापक क्षेत्र 90 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्र 61.98 वर्ग मीटर श्री पवन कुमार ओझा के स्वामित्व का जोकि पंजीयन सं. 4829, पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 10457, पृष्ठ सं. 169 से 192 दिनांक 13.03.2012 को लिखित संग उप पंजीयक सदर गौतम बुद्ध नगर उ.प्र. के अंतर्गत पंजीकृत का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : उत्तर-पूर्व की ओर : मकान सं. 223, उत्तर-पश्चिम की ओर : मकान सं. 209, दक्षिण-पूर्व की ओर : मकान सं. 211, दक्षिण-पश्चिम : 9 मीटर चोडी सडक।

दिनांक: 06.11.2021 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी



टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेटस लिमिटेड

सीआईएनः L29199HR1956PLC033107 पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फोन नं: 0129-2251482, वेबसाइट: www.talbros.com, ई-मेल: seema narang@talbros.com

Q2 में समेकित निवल राजस्व मे 32.19 प्रतिशत वद्धि*

Q2 में समेकित पीबीटी में 30.69 प्रतिशत वद्धि*

Q2 में समेकित पीएटी में 11.20 प्रतिशत वद्धि*

*पिछले वित्तीय वर्ष के Q2 की तलना में

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश समाप्त तिमाही

समाप्त छमाही समाप्त वर्ष 30-सित-21 30-जून-21 30-सित-20 30-सित-21 30-सित-20 31-मार्च-21 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित

प्रवालना स कुल आय	14,570.01	13,001.90	11,021.03	20,451.91	10,070.20	40,010.14		
अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि)	1,377.07	1,143.30	1,053.70	2,520.37	138.07	3,368.70		
अपवादात्मक मदें	I	ı	-	_	_	1,811.94		
कर पूर्व लाभ / (हानि)	1,377.07	1,143.30	1,053.70	2,520.37	138.07	5,180.64		
कर पश्चात निवल लाभ / (हानि)	1,112.16	995.97	1,000.15	2,108.13	114.44	3,913.07		
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात् लाभ / (हानि) और कर पश्चात् अन्य व्यापक आय शामिल)	1,062.72	1,444.65	1,203.95	2,507.37	536.08	5,022.39		
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56		
प्रति शेयर अर्जन (₹10/- प्रत्येक) (अवधि के लिए — वार्षिकीकृत नहीं) मूल (₹) तनुकृत (₹)	9.01 9.01	8.07 8.07	8.10 8.10	17.08 17.08	0.93 0.93	31.70 31.70		
30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए								

अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारांश

समाप्त वर्ष 16,070.20 45,315.14 122.13 2,816.43

विवरण 30-सित-21 | 30-जून-21 | 30-सित-20 | 30-सित-21 | 30-सित-20 | 31-मार्च-21 11,021.63 28,451.91 प्रचालनों से कुल आय 14,570.01 13,881.90 अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) 770.47 2,164.27 1,158.01 1,006.26 1.158.01 1.006.26 770.47 2.164.27 122.13 4.628.37 98.50 3,360.80 कर पश्चात् निवल लाभ / (हानि) 893.10 858.93 716.92 1,752.03 टिप्पणी:

उपरोक्त, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणामें के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सजेंच वेबसाइटों (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट www.talbros.com पर भी उपलब्ध हैं। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की 8 नवम्बर, 2021 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसा की गई है

और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है तथा कम्पनी के साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' की गई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, समूह ने चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बेच दिए हैं और चेन्नई संयंत्र से संबंधित प्राय, इन्वेट्री और अन्य प्रिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया है। लेन्देन से शुद्ध लाम परिणामों में असाधारण वस्तुओं के रूप में प्रकट किया गया है। परिणामों में कर व्यय के हिस्से के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर क खुलासा किया गया है। निम्नलिखित तालिका असाधारण वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर औ सँचालन और संबंधित कर व्यय से लाभ के बीच विभाजन प्रदान करती है।

क्र. सं.	विवरण	समेकित					
सं.		समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वर्ष	
		30-सित-21	30-जून-21	30-सित-20	30-सित-21	30-सित-20	31-मार्च-21
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
क.	परिचालन लाभ						
	1 असाधारण वस्तु से पहले लाभ	1,377.07	1,143.30	1,053.70	2,520.37	138.07	3,368.70
	2 कर व्यय	(264.91)	(147.33)	(53.55)	(412.24)	(23.63)	(924.89)
	कर अदायगी के बाद लाभ	1,112.16	995.97	1,000.14	2,108.13	114.44	2,443.82
ख.	चेन्नई संपत्ति का मुद्रीकरण						
	(असाधारण)						
	1 असाधारण वस्तुएं	_	-	-	_	_	1,811.94
	2 पूंजी लाभ कर	-	I	-	-	-	(342.68)
	कर अदायगी के बाद लाभ	-	-	-	-	_	1,469.26
	(असाधारण वस्तएं)						

- 4 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के प्रचालन वित्तीय परिणाम कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये लॉकडाउन की सीरीज़ के कारण पहली तिमाही के कुछ भाग के लिए प्रचालन रोके गये थे और अपेक्षित सावधानियों के साथ धीरे—धीरे प्रारंभ हुए। इसलिए 30 सितम्बर, 2021 के परिणाम पिछली तिमाहियों एवं समाप्त छमाही के लिए तुलनीय नहीं है। समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश, नवोन्मेष, प्राप्य और अन्य चालू परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि पर इस् महामारी से उत्पन्न होने वाले अनुकूल प्रमावों पर विचार किया है। समूह को उमीद है कि इन परिसम्पत्तियों की अग्रेषित राशि वसूल हो जाएगी और वित्तीय विवरण में आवश्यक भौतिक समायोजन नहीं होगा। समूह भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा।
- 5 तुलनात्मक ऑकड़ों को वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो फिर से वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

दिनांक : नवम्बर 8, 2021

उमेश तलवार उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00059271